

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 258] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 1972/आश्विन 17, 1894  
 No. 258] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1972/ASVINA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
 as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

### NOTIFICATION

New Delh, the 9th October 1972

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967. namely:—

1. This Order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Amendment Order, 1972.

2. In clause 2 of the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967 (hereinafter referred to as the said Order), in sub-clause (h), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) in relation to edible flour, a person carrying on the business of using edible groundnut flour in the manufacture of blended and processed food”.

3. In clause 3 of the said Order, in sub-clause (2), for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

“(i) Category ‘A’—in respect of a producer whose factory is, in addition to being equipped with a solvent extraction plant, also equipped for pre-

cleaning oilseeds, and, except where oilseeds are subjected to direct extraction, is further equipped, for pre-expressing oil therefrom prior to solvent-extraction."

4. In clause 9 of the said Order,—

(i) in the proviso to sub-clause (3), after item (v), the following item shall be added, namely:—

(vi) tamarind seed oil;

(ii) in sub-clause (6), for the words beginning with "No producer shall manufacture" and ending with "any such edible flour unless" the following words shall be substituted, namely:—

"No producer shall manufacture, stock for sale, or offer for sale, any edible flour and no retailer or user shall use, stock, buy or offer to buy edible or wheat flour unless";

(iii) in sub-clause (6), for the words "to be flour" the words "to be edible or wheat flour" shall be substituted.

5. The said Order shall be deemed to have been made on the 1st day of January, 1940, and shall be deemed to have been made on that date.

6. The said Order shall be deemed to have been made on that date.

7. The said Order shall be deemed to have been made on that date.

8. The said Order shall be deemed to have been made on that date.

9. The said Order shall be deemed to have been made on that date.

8. In the Fifth Schedule to the said Order,—

(1) in para 1, for item (iii), the following items shall be substituted:—

“(iii) sesame

(iv) Soybean”

(ii) In the Table,—

(a) after the column-head “Groundnut”, the column-head “Sesame” shall be inserted; and under the column-head “Sesame” as inserted, the following requirements shall be inserted, namely:—

Characteristic	Requirements
(i) Moisture, percent by weight, maximum	9.0
(ii) Crude, protein (Nx6.25) (on dry basis), per cent by weight, minimum	47.0
(iii) Available lysine, g. per 100 g. of crude protein, minimum	..
(iv) Total ash (on dry basis), per cent by weight, maximum	6.0
(v) Acid-insoluble ash (on dry basis) per cent by weight, maximum	0.15
(vi) Fat (on dry basis), per cent by weight, maximum	1.5
(vii) Acid value of extracted fat, maximum	4.0
(viii) Crude fibre (on dry basis), per cent by weight, maximum	6.0
(ix) Residual solvent, ppm, maximum	170
(x) Aflatoxin, ppm, maximum	..
(xi) Free gossypol, per cent by weight, maximum	..
(xii) Total gossypol, per cent by weight, maximum	..
(xiii) Total bacterial count per g., maximum	50,000
(xiv) Coliform bacterial count per g., maximum	10
(xv) Salmonella bacteria	Nil
(xvi) Urease activity	..

(b) after item (xvi), the following item shall be added, namely:—

Characteristic	Requirements			
	Cotton-seed	Ground-nut	Sesame	Soybean
(vii) “(xiv). Oxalic acid content, per cent by weight, maximum	..	..	0.5	..”

Characteristic	Requirements
"(viii) Lead, g./litre, maximum . . . . .	0.0005
(ix) Phosphates, ppm., maximum . . . . .	20 "

*"Name and address of persons to whom the despatches of edible groundnut flour shown above were made.*

Name and address of registered user	Quantity (tonnes)

S. V. SAMPATH,  
Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1972

1. इस आदेश का नाम खिलायक निष्कषित नेल, निर्तेलकृत मैदा और खाद्य आटा (नियन्त्रण) सन्गोधन आदेश, 1972 है।

2. विलायक निष्कर्षित तेल, निरैलकृत मैदा और खाद्य आटा (नियन्त्रण) आदेश, 1967 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवेश कहा गया है) खण्ड 2 में, उपखण्ड (ज) में, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(ii) खाद्य आटे के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो खाद्य मूंगफली के आटे का मिश्रित और मन्साधित खाद्य के विनिर्माण में प्रयोग करने का कारबार करता है”।

3. उक्त आदेश के खण्ड 3 में, उपखण्ड 2 में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(i) प्रवर्ग ‘क’ में उस उत्पादक की बाबत जिसके कारखाने में विलायक निष्कर्षक मयंत्र लगे होने के अनिवार्य प्री-क्लीनिंग आयल सीड्स भी लगा हो, और सिवाय वहां के जहां कि तिलहनों से सीधे निष्कर्षण किया जाता हो, विलायक निष्कर्षण से पूर्व उसमें से तेल के पूर्व निष्कासन वाला अनिवार्य मयंत्र भी लगा हो।”

4. उक्त आदेश के खण्ड 9 में,—

(i) उप खण्ड (3) के परन्तुक में, मद (v) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

“(vi) टैमरिड सीड आयल”;

(ii) उपखण्ड (6) में “कोई उत्पादक विनिर्माण नहीं करेगा” में आरम्भ होने वाले और “ऐसा कोई खाद्य आटा तब तक” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“कोई उत्पादक किसी खाद्य आटे का विनिर्माण, विक्रय के लिए स्टोक या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा और कोई रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ता किसी ऐसे खाद्य मूंगफली के आटे का प्रयुक्त, स्टोक, क्रय या क्रय के लिए प्रस्थापना तब तक नहीं करेगा जब कि”;

(iii) उपखण्ड (6क) में “खाद्य आटा” शब्द जहां कहीं भी वे आये हैं, के स्थान पर “खाद्य मूंगफली आटा” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. खण्ड 11-क में, मद (घ) में “खाद्य आटा” शब्दों के स्थान पर “खाद्य मूंगफली-आटा” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त आदेश की प्रथम अनुसूची में,—

(i) पैरा 3 में शर्त (2) में, मद (ग) में “खाद्य आटा” शब्द जहां कहीं भी वे आये हैं, के स्थान पर “खाद्य मूंगफली आटा” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; और

(ii) केवल प्रवर्ग ‘क’ अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अनिवार्य शर्तों में, शर्त (1) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(i) अनुज्ञप्तिधारी अपने कारखाने में तिलहन को पूर्व साफ करने की, और सिवाय वहां के जहां कि तिलहन से सीधे निष्कर्षण किया जाता हो, इस प्रकार प्राप्त खली को विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया में लगाने से अव्यवहित पूर्व उनमें से एकल दाब द्वारा तेल के पूर्व निष्कासन की भी सुविधाएं प्रदान करेगा।”

## 7. उक्त आदेश की चतुर्थ अनुसूची में,—

(i) पैरा 1 में, मद (क) में, “छिलका रहित तिलहन” शब्दों के स्थान पर “उक्त तिलहन” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे और उप-मद ( ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

“(v) नाइजरसीड

(vi) सेफलावर”;

(ii) सारणी में, मद (5) के पश्चात् निम्नलिखित मदें संबंधित स्तम्भ शीर्ष के अन्तर्गत जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

निर्लेकृत मंडा	भार के आधार पर नमी प्रतिशत अधिकतम	भार के आधार पर अपरिष्कृत प्रोटीन + (नाइट्रोजन + 6.25) प्रतिशत न्यूनतम	भार के आधार पर अपरिष्कृत वसा या + इथर तन्तु + प्रतिशत अधिकतम	भार के आधार पर अपरिष्कृत तन्तु + प्रतिशत अधिकतम	भार के आधार पर अम्ल अविलेय भस्म + ; प्रतिशत, अधिकतम
“(vi) नाइजरसी	9	35	1.0	18	1.5
(vii) सेफलावर					
(क) छिलका रहित	10	34	1.5	24	1.5
(ख) छिलका सहित	10	20	1.5	35	2.0”;

## 8. उक्त आदेश की पांचवी अनुसूची में,—

(i) पैरा 1 में मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

“(iii) तिल

“(iv) योदावीन”

(ii) सारणी में,—

(क) “मूंगफली” स्तम्भ शीर्ष के पश्चात् “तिल” स्तम्भ शीर्ष अंतःस्थापित किया जायेगा और यथा अंतःस्थापित “तिल” स्तम्भ शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित अपेक्षाएं अंतःस्थापित की जायेंगी :—

लक्षण	अपेक्षाएं
(i) भार के आधार पर नमी प्रतिशत अधिकतम	9.0
(ii) भार के आधार पर अपरिष्कृत प्रोटीन (Nx6.25) (सूखे भार आधार पर) प्रतिशत, न्यूनतम	47.0



10. उक्त आदेश की सातवीं अनुसूची में, प्ररूप एस० ई० ओ० (6) में दूसरी सारणी, जो 'व्यक्तियों के नाम और पते' पर शब्दों से आरम्भ होती है, के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“उपर्युक्त खाद्य मृगफली के आटे की प्रेषितियां जिनको भेजी गई थीं उन व्यक्तियों का नाम और पता

रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता का नाम और पता	रजिस्ट्रीकरण संख्या	मात्रा (टन)

[सं० 2-एम ई ओ (1)/70]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव,